



Bal Bharati
PUBLIC SCHOOL

Sector – 21, Noida
Phone : 0120-2534064, 2538533 / E-mail : bbpsnd@balbharati.org
Website : <http://bbpsnoida.balbharati.org>

पुरस्कार वितरण समारोह दिवस **2019-20**

विद्यालय परिसर में हुआ, उत्सव का आगाज़
छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं पर, किया गया नाज़

बाल भारती पब्लिक स्कूल, नौएडा के सभागार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 16 दिसम्बर 2019 को छात्रों के द्वारा किए गए अथक प्रयास को सरहाने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैलाश अस्पताल के प्रधान संचालक व जाने-माने सांसद श्री महेश शर्मा जी, बाल भारती सोसायटी के पूर्व चेयरमेन माननीय श्री ओ.पी.भूटानी जी एवं वर्तमान चेयरमेन श्री निखिल चानना जी, सेक्रेटरी श्री सूरज प्रकाश जी व प्रधानाचार्या श्रीमती आशा प्रभाकर जी एवं बाल भारती स्कूल के पी. टी. ए के वाइस प्रेसिडेंट श्री संदीप अग्रवाल जी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया व अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस समारोह में मुख्य अतिथि श्री महेश शर्मा जी के कर कमलों द्वारा छात्रों को शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन व निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया गया। शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षा एक से अरिका अग्रवाल, कक्षा दो से वेदिका श्रीवास्तव, कक्षा ग्यारह के विज्ञान संकाय की अनुष्का पाण्डेय, वाणिज्य संकाय की अनुष्का जोशी व कला संकाय की अनन्या शमशेरी व अन्य कक्षाओं के छात्रों को समस्त वर्गों में उत्तम प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। कक्षा बारह के छात्रों को विषयगत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने व 95% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी जैसे विभिन्न खेलों, कला, नाटक, संगीत, विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में भी छात्रों ने अपने हुनर का प्रदर्शन कर अनेक पुरस्कार अपने नाम किए। प्राथमिक स्तर पर दीया राजन को, कक्षा छः से आठ की श्रेणी में अग्रिमा तिवारी एवं नीति वर्मा को (अंग्रेजी), अंजली कुकरेती को (हिंदी) तथा कक्षा नौ से दस की श्रेणी में अभिजीत पाण्डेय एवं संजीव पद्मनाभा को (अंग्रेजी), नताशा चौहान को (हिंदी) में सर्वश्रेष्ठ पाठक का खिताब दिया गया। सदन ट्रॉफी श्रीमती अंजली शर्मा (शिवाजी सदन) व श्रीमती रचना सौंधी (रमन सदन) ने अपने नाम की।

इच्छा शक्ति व दृढ विश्वास, जो मन में जागेगा,
तो तेरे हुनर का परचम, हर ओर लहराएगा।

इसी कथन की सार्थकता सिद्ध करते हुए जहाँ एक ओर पूरे भारत देश में प्रथम स्थान पर रहे दिव्यांश वाधवा ने 99.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया, वहीं कक्षा बारह में स्वाति चौहान ने विज्ञान संकाय में 97.6%, चैतन्य व सलोनी छावड़ा ने वाणिज्य संकाय में 97.8% व अनिध्या सिंह ने कला संकाय में 98.4% अंक पाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

इस विशेष दिन मुख्य अतिथि व विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती आशा प्रभाकर जी ने मंच पर छात्रों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन हेतु बधाई दी व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपने सुविचारों से प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र गान के साथ किया गया।



दीप प्रज्ज्वलन से कार्यक्रम का शुभारम्भ



प्रतिभा के बल पर विद्यालय का नाम किया रोशन



सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनभावन प्रस्तुति



श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सदन ट्रॉफी से सम्मानित